

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर

Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur

(State University, Government of M.P.)

Maharaja College campus, Panna Road,

District Chhatarpur, PIN-471001, Madhya Pradesh, India

क्रमांक/R18/2021

दिनांक 26-04-2021

संशोधित अधिसूचना

परीक्षा फार्म (नियमित/स्वाध्यायी)

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के समस्त स्नातक (व्यवसायिक/तकनीकी) पाठ्यक्रम (सेमेस्टर पद्धति) 2nd/4th/6th/8th/10th सेमेस्टर एवं समस्त स्नातकोत्तर (पारंपरिक/व्यावसायिक/तकनीकी) पाठ्यक्रम 2nd/4th सेमेस्टर एवं यूटीडी में अध्ययनरत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों 2nd सेमेस्टर **नियमित/स्वाध्यायी/फेल/एटीकेटी सत्र जून-2021** के छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म भरने हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक R214/2021 तथा R216/2021 दिनांक 19-04-2021 में आंशिक संशोधन करते हुये ऑनलाइन परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल <https://mcbu.mponline.gov.in> से भरने की संशोधित तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है।


क्रं.	विवरण	निर्धारित तिथियां
1	सामान्य शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि	15-05-2021 तक
2	बिलंब शुल्क रुपये 750/- के साथ ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की तिथि	20-05-2021 तक
3	विशेष विलंब शुल्क रुपये 1000/- के साथ परीक्षा फार्म भरने की तिथि	25-05-2021 तक

महाविद्यालयों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

1. महाविद्यालयों द्वारा छात्रों के परीक्षा फार्म को विश्वविद्यालय में एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर अप्रूव करना होगा। महाविद्यालयों से आग्रह है कि वे अपने यहां इंटरनेट व कम्प्यूटर की सुविधा आवश्यक रूप से कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बच सकें।
2. महाविद्यालयों से आग्रह है कि वे उक्त निर्धारित तिथियों का पालन सुनिश्चित करें तथा समस्त संबंधित छात्रों को सूचित करें।
3. महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे म.प्र. राज्य शासन के उच्चशिक्षा विभाग के निर्देशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें, यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालयों की होगी।
4. वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के उपरांत हार्डकॉपी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी

छात्र/छात्राएँ परीक्षा फार्म भरने उपरांत प्रिन्ट आउट लेकर हार्डकॉपी अपने पास सुरक्षित रखें, आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा हार्डकॉपी मंगवाई की जा सकती है।

5. महाविद्यालयों को यह भी सूचित किया जाता है कि "परीक्षार्थी हस्ताक्षर पत्रक" (सिग्नेचर शीट) को एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल से डाउनलोड कर प्रिंट करना होगा और संबंधित परीक्षा केन्द्र को प्रेषित करना होगा।
6. समस्त छात्र/छात्राएँ कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुये मास्क/सेनेटाइजर आदि का उपयोग कर शासन के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
7. ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के दूरभाष नं0 07682-244442 अथवा 7974856815, 8982739094 एवं किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता हेतु एम0पी0 ऑनलाइन के हेल्पलाइन नं0 0755-4019400 पर संपर्क कर सकते हैं।


डॉ. पी.के. पटेरिया
कुलसचिव

पृ.क्र./कु.स./2021/R19

दिनांक - 26-04-2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त महोदय, उच्चशिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
2. कुलपति के निज सचिव के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ ।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, सागर संभाग, सागर की ओर सूचनार्थ।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय छतरपुर की ओर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम0पी0 ऑनलाइन लिमिटेड, तृतीय तल, स्टेट आई.टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गांधी नगर भोपाल 462033 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. समन्वयक, समस्त शा0अग्रणी महाविद्यालय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि.वि., छतरपुर
8. उपकुलसचिव/सहा. कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि.वि., छतरपुर
9. समस्त परीक्षा सहायक, परीक्षा शाखा, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर
10. संपादक दैनिक समाचार पत्रों की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को लोकप्रिय समाचार पत्र में छात्रहित में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. समस्त संबंधित विद्यार्थियों को सूचनार्थ ।
12. बेवसाइट प्रभारी - विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
13. मूल नस्ती ।


डॉ. पी.के. पटेरिया
कुलसचिव
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, -छतरपुर (म.प्र.)